

Ahluwalia Contracts (India) Limited

Engineering, Designing & Construction

Date: 04-09-2024

The

Compliance Department

BSE Limited.

25th Floor, P.J. Towers Dalal Street, Mumbai -

400001

Compliance Department National Stock Exchange of India

5th Floor, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex.

Bandra (East) Mumbai- 400051

Compliance Department Calcutta Stock Exchange Ltd 7, Lyons Range, Dalhousie, Murgighata, B.B.D. Bagh, Kolkata, West Bengal - 700001

Scrip Code: NSE: - AHLUCONT, BSE: - 532811 - ISIN Code: INE758C01029

Sub: Compliance with Regulation 47 of the SEBI (LODR), Regulations 2015 as amended

Ref.: Advertisement- Notice of 45th Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

With reference to the Regulation 47(1)(d) read with Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper clippings published in Jansatta (Hindi) and in Financial Express (English) on Wednesday, the 4th day of September, 2024, in respect of Notice of 45th Annual General Meeting and remote e-voting information regarding 45th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, 27th September, 2024 at 12.30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")

The Notice has been sent to all the Members on 03-09-2024, whose names appeared in the Register of Members / Record of Depositories as on 30-08-2024. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 21st day of September 2024 to Friday, 27th day of September 2024 (Both days inclusive) for the purpose of the AGM and final dividend may follow the same instructions as mentioned for remote e-voting in the Notice.

You are requested to kindly take the same on records.

Yours faithfully, For Ahluwalia Contracts (India) Ltd

(Vipin Kumar Tiwari) **Company Secretary**

Encl.: As above

की विस्तृत प्रक्रिया और तरीका, एजीएम में ई-वोटिंग। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को नोटिस में दिए गए विभिन्न तरीकों के साथ-साथ उनके ईमेल पते को सफलतापूर्वक पंजीकृत करने के बाद ईमेल के माध्यम से उपलब्ध व जाएंगे। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

 वैकल्पिक रूप से, सदस्य एजीएम नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

यह नोटिस कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाम के लिए एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

क्रेनेक्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/-हीना शर्म कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या- ए६५५१२

विनांक: 04.09.2024

स्थान: दिल्ली

साउर्थन इंफोसिस लिमिटेड

CIN: L67120DL1994PLC059994

पंजि0 कार्यालयः ४०२-ए, अरुणांचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 फोनः 011-43045402, वेबसाइटः https://southerninfosys.com

30वीं वार्षिक आम सभा तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को 12.30 बजे अप. में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी'') अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा आयोजित की जाएगी, वित्त वर्ष 2023-24 के क्रिए कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट के साथ उसके निष्पादित होने वाले व्यवसायों मे शामिल सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धित से केवल उन्ही सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कॉर्पोरेट मंत्रालय और भारतीय प्रति भृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सरकुलर्स के अनुसार कंपनी / डिपोजिटरीज के पास पंजिकृत है तथा वह हमारी वेबसाइट https://southerninfosys.com तथा साथ ही NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। 30वीं एजीएम का निर्धारित स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के अंतर्गत एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें एजीएम के उदेश्य से 18 सितंबर, 2024 से 25 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेंगे।

कंपनी विनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एंव उद्घाटन उपेक्षा) बिनियमन 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रहत्त ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से एजीएम सूचना निर्दिष्ट प्रभी प्रस्तावों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को सहर्ष ई-वोटिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:

1. ई-वोटिंग के लिए सदस्य की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने 18 सिलंबर, 2024 को "कट - ऑफ" तिथि निर्धारित की है।

2. वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की सूचना का प्रेषण 3 सितंबर 2024 को पूरा कर दिया गया

 रिमोट ई—वोटिंग 22 सितंबर, 2024 को सुबह 9.00 बजे 24 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे तक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद, रिमोट ई-वोटिंग पद्धति एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जाएगी।

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के बाद कंपनी शेयर अर्जित करते है तथा कंपनी का सदस्य बनते है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते है, वह evoting@nsdl.co.in पर

अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्यगण ध्यान रखें कि: (क) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा एजीएम से पूर्व अपना मतदान कर दिए है, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, किंतु एजीएम मे पून: मतदान के लिए अधिकृत नहीं होंगे। (ख) केवल ऐसे व्यक्ति ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का उपयोग कर मतदान के लिए अधिकृत होंगे जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 18 सितंबर 2024 को सदस्यों के रिजस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित

लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होंगे। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न / समस्या निदेशक, साउर्थन इंफोसिस लिमिटेड 402-ए, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110001, टेलीफोन 011-43045402, ई--मेल: southerninfosys@gmail-com को संबोधित की जा सकती है।



(कॉर्पोरेट आईडी संख्या : L45101DL1979PLC009654) पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. ए-177, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया,

फेज-1, नई दिल्ली-110020

वेबसाइट : www.acilnet.com, ई-मेल : cs.corpoffice@acilnet.com

45वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की सूचना

एतद्दवारा यह सुचना दी जाती है कि एजीएम की सुचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों को संचालित करने के लिए अहलवालिया कॉन्टैक्टस (इण्डिया), लिमिटेड की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को दोपहर 12.30 बजे (मा.मा.स.),वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से ए-177, ओखला औद्योगिक क्षेत्रं, फेज-1, नई दिल्ली-110020, (प्रथम) पर आयोजित की जाएगी।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09.2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के साथ पठित , कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी एमसीए ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी पिछले परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 के अनुसार ,कंपनियों को 30-09-2024 तक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 और लागू परिपत्रों के अनुपालन में, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमन के साथ कंपनी की 45वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इसलिए सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं।

45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 03-09-2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-मेल) के माध्यम से उन संभी सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनका नाम शुक्रवार, 30-08-2024 तक सदस्यों के रिजस्टर में दर्ज था।वार्षिक आम बैठक की सचना और वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट www.acilnet.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, और लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, कंपनी के 45वें वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से और कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 21-09-2024 से शुक्रवार, 27-09-2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 24-09-2024 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और 26-09-2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी; उपर्युक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुन:-दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए पात्रता के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 20-09-2024 है।

ए) मतदान के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल . को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

बी) जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना बोट डालने का अधिकार नहीं होगा;

इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों पर सुश्री पल्लवी म्हात्रे) प्रबंधक) एनएसडीएल, ट्रेंड वर्ल्ड ए-विंग कमला मिल कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई-400013 से चर्चा की ज सकती है। या evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भेजें या 022-24997000 और 022-48867000 पर कॉल करें। सदस्य किसी भी प्रश्न के लिए उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर हस्ताक्षर सहित लिख सकते हैं अथवा cs.corpoffice@acilnet.com पर ईमेल कर सकते हैं।

कंपनी ने श्री संतोष कुमार प्रधान, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस नंबर 6973 और सीपी नंबर 7647) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रुटिनाइजर

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन से 48 घंटे के भीतर घोषित किए जाएंगे घोषित परिणाम स्कृटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट और बीएसई और एनएसई पर प्रवर्शित किए जाएंगे।

अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्टस (इंडिया) लिमिटेड के लिए हस्तामएकर्ता /-

स्थानः नई दिल्ली. दिनांक: 04-09-2024 (विपिन कुमार तिवारी) कंपनी सचिव

जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 574, द्वितीय तल, मुख्य मार्ग, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-110017

गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को सुबह ११.३० बजे आयोजित की जाएगी। (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ॉडियो-वीडियो साधनों ("ओवीएएम") के माध्यम से कंपनी की एजीएम आयोजित करने वाले नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय करने सुविधा। बैठक का माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उक्त नोटिस और रिपोर्ट 02 सितंबर, 2024 को सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई है, जिनका ईमेल पता कंपनी और/या आरटी बिग शेव्रर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकृत कार्यालय है और पर भी उपलब्ध है। कंपनी की वेबसाइट https://signoria.in/

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग हेत निर्देश

सदस्य यह नोट कर सकते हैं कि:

ं रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग) और एजीएम में वोटिंग में भाग लेने के लिए पा सदस्यों को निर्धारित करने के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 है। कृपया ध्यान दें सदस्य मतदान व केवल एक ही तरीका चुन सकते हैं, यानी या तो बैठक में मतदान करके या रिमोट ई-वोटिंग द्वारा। यदि सदस्य रिमोट ई वोर्टिंग का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें बैठक में वोट नहीं देना चाहिए और इसके विपरीत भी। हालाँकि, एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर ई-वोट ड्रालने के बाद, ऐसे सदस्य को बाद में इसे बदलने या दोबारा वोट डोलने की अनुमति नहीं होती है। जिन सदस्यों ने बैठक की तारीख से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं और बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

मतंदान की अवधि **सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को सुबह 10.00 बजे** शुरू होगी और **बुधवार, 25 सितंबर 2024** को शाम **5.00 बजे** समाप्त होगी। इसे अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जो कटऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि) यानी **गुरुवार**, 19 सितंबर, 2024 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, इलेक्टॉनिक रूप से अपना चोट डाल सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, कट-ऑफ तिथि यानी **गुरुवार, 19 सितंबर, 2024** को शेयर रखता है, एक भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ivote@bigshareonline.com पर अनुरोध करें।

यदिं शेयरधारकों/निवेशक के पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न है, तो आप https://wote.bigshareonline .com पर डाउनलोड अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और आई-वोट ई-वोर्टिंग मॉड्यूल का संदर्भ ले सकते हैं या आप ऐसा कर सकते हैं। ivote@bigshareonline.com पर ईमेल करें या यहां कॉल करें 1800-225422

सिम्नोरिया क्रिएशन लिमिटेड के लिए

वासु देव अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन: ००१७८१४६

दिनांक : 3 सितंबर, 2024

स्थान : जयपुर

स्वास्तिक पाइप लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 1/23बी, आसफ् अली रोड, अजमेरी गेट एक्सटेंशन, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110002

फोनः 011-35453545 ए info@swastikpipes.com सीआईएन: U74899DL1973PLC006881

ोडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वार्ल खास्तिक पाइप लिमिटेड के शेयरधारकों की 51वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी ('बैठक'

सदस्य कृपया ध्यानं दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), उसके तहत बनाए गए सभी लागू नियमों और कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपन्न संख्या 9/2023 दिनांक 25.09,2023 एवं इस संबंध में जारी अन्य परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता ब्राध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (एलओबीआर) के लागू प्रावधानों तथा सेबी परिपन्न दिनांक 07.10.2023 के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को संधालित करने के लिए कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 28 सितंबर 2024 को 10.30 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य औडियो-विजुअल साधनों (ओएबीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

. प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, बैठक की सूचना और अन्य दस्तावेज केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते कंपनी /आएटीए / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। बैठक की सूचना और अन्य वस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://swastikpipes.com, स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड की वेबसाइट www.nseindia.com और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिर्टेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध

सदस्यों को इसके द्वारा सुचित किया जाता है किरू

(क) उपर्युक्त प्रावधानों और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने कंपनी के उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण के साथ बैठक की सूचना ('नोटिस') की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां भेजने का काम पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') तक कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं।

(ख) ई—वोटिंग अवधि बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को सुंबह 9.00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी.

(ग) ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगाट

(घ) केवल वे सदस्य जिनके नाम कट—ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स द्वारा बनाए गए लामभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक न भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगीय

च) शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश बैठक की सूचना के नोट्स में दिए गए हैं।

ज) कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के लिए सीएस कर्म साहनी,प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सदस्यता संख्या ए६४९८६ को जांचकर्ता के रूप में नियक्त किया है।

(झ) जिन सदस्यों को नोटिस नहीं मिला है, वे cs@swastikpi es.com पर लिख सकते हैं और इसे ईमेल पर प्राप्त

कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के

यह सूचना अधिसूचना सं. DNBS(PD)029/0 तथा पत्रांक प.लि. (न.दि.) सं. 5523/एनबीए (www.jtel.co.jn) पर उपलब्ध है तथा साथ ही नि कार्यालयी घंटो के दौरान सभी कार्यदिवसों में उपलब्ध कम्पनी बैठक में पारित होने वाले प्रस्तावों पर मतदान साधनों (ई-वोटिंग) के माद्यम से मतदान की सुविधा भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई-वोरि कम्पनी ने ई-वोटिंग सविधा उपलब्ध कराने के लि लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएँ ग्रहण की हैं। अन्य बातों के साथ-साथ एजीएम आयोजित करने क ई-वोटिंग से सम्बन्धित सुचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग हेतु सम्पर्क का प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज (w वीटिंग तथा सिस्टम उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) (www.kylinerta.com) तथा कम्पनी (www.j रिमोट ई-वीटिंग सुविधा बुधवार, 25 सितम्बर, 202

रविवार, 29 सितम्बर, 2024 को 5.00 बजे अप. (पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमावार, 23 सितम्बर, 202 होंगे केवल वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा समय-र अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसा कम्पनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से

निदेशक मण्डल ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से ई-वी के रूप में डी.पी. गुप्ता, मैसर्स एसजीएस एसोसिएट्स सं. 1509 को नियुक्त किया है। संवीक्षक ई-वोटिंग समाप्ति 03 अक्टूबर, 2024 से पूर्व यथाशीघ्र अन्ति तुरन्त स्टॉक एक्सचेंज एमएसईआई के पास अग्रसारि शेयरधारक ई-वोटिंग हेतु निर्देश के लिए सीडीएसएल (www.skvlinerta.com) तथा कम्पनी की वेबसाइ सेबी ने 3 नवंबर, 2021 के परिपन्न संख्या SEBL/E माध्यम से भौतिक प्रतिभृतियों के धारकों द्वारा पैन, इ प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। जिन फोलियो में को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, उन्हें कंपनी के जाएगा और आप आरटीए से शिकायत दर्ज करने या में लाभांश प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। भौतिक प्रति के पास विवरण प्रस्तुत करें और डीमैट खाताधारकों

साथ अपडेट रखें। ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी पूछताछ, मुद्दे या उपलब्ध हेल्प सेक्शन के तहत एफएक्यू helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख info@skylinerta.com, admin@Skylinerta.co

कम्पनी से समयबद्ध ढंग से सूचना प्राप्त करने के लि

दिनांक: 30.08.2024 स्थान : नई दिल्ली

बीएलर्ब

सीआईएन : 1.671

पंजीकृत कार्यालय : मकान नं दरियागंज, नई दिल्ली-110

ई-मेल : infoblb@blblimited.co

43वीं वार्षिक आम बैठक तथा रि एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि एमएन बीएलबी लिमिटेड (कंपनी) गुरुवार, 26 सितंबर ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमाँ ("ओं" में निर्धारित व्यवसायों को करने के लिए कंप बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विश te

he

Form No. INC-26

{Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014} Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi

the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies

sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND
In the matter of
KRIHANT CORPORATION PRIVATE LIMITED (CIN: U74999DL2012PTC287745)
having its Registered Office at House No.
154, Ground Floor, Block-G, PKT-4, Sec-16, Rohini, New Delhi-110085
.......Applicant Company / Petitioner
NOTICE is hereby given to the General Public that the Applicant Company proposes to make an application to the Central mat the Applicant Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary Caparal Mediting held on 19th Aurust 2024 to General Meeting held on 19th August 2024 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of West Bengal". Any person whose interest is likely to be

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director. Northern Begion Ministry. the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs at the address B-2 Wing 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the regis-Company at its Registered online at the regis-tered address mentioned below:-House No. 154, Ground Floor, Block-G, PKT-4, Sec-16, Rohini, New Delhi- 110085 For & on behalf of Krihant Corporation Private Limited

SACHIN KUMAR JAIN DIN: 07617986

Date: 03.09.2024 | Place: New Delhi

Before the Hon'ble National Company Law Tribunal New Delhi, Bench III Company Application No. CP/69/ND/2023 In the Matter of The Companies Act, 2013

The Companies Act, 2013
And
Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with National Company Law Tribunal (Procedure for reduction of Share Capital of Company) Rules, 2016
And
NJC HYDRO POWER LIMITED

a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having CIN-U40101DL2009PLC196998 and having its registered office at Bhilwara Bhawan, 40-41, Community Centre, New Friends Colony, New Delni-110025

.....Applicant Company Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench-III (NCLT) vide its order dated 21.08.2024, confirmed (NCLT) vide its order dated 21.08.2024, confirmed the special resolution passed by the applicant company M/s NJC Hydro Power Limited on 24.02.2023 for reduction of issued, subscribed and paid-up equity share capital from Rs. 100,00,00,000/- (Rupees One Hundred Crore only) to Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lacs only) and also approved the minutes as set out in the applicant company's petition. The minutes as approved are quoted herein below:

approved are quoted freemin below.

"The issued, subscribed and paid-up equity share capital of NJC Hydro Power Limited is henceforth Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lacs only) divided into 50,000 (Fifty Thousand) equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each."

The copy of the Hon'ble NCLT order dated 21.08.2024 is available at the link mentioned herein below:

https://nclt.gov.in/gen_pdf.php?filepath=/ Efile_Document/ncltdoc/casedoc/

AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED

(Corporate Id Number: L45101DL1979PLC009654) Regd. Office: Plot No. A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Website:- www.acilnet.com, E-mail:- cs.corpoffice@acilnet.com NOTICE OF THE 45th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

The Notice of 45th Annual General Meeting (AGM) of Ahluwalia Contracts (India) Ltd. (the Company) will be held on Friday, the 27th day of September, 2024 at 12.30 p.m. hosted at A-177, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020, (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM;

Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM;
Pursuant to General Circular Nos. 09.2023 dated 25th September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs read together with previous Circulars issued by MCA ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/167 Dated 7th October 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") the Companies are permitted to hold the AGM Through VC/OAVM, without physical presence of members at a common venue fill 30.09-2024 venue till 30-09-2024.

Accordingly, in compliance with the Companies Act, 2013, SEBI (LODR) Regulations 2015 and applicable circulars read with the rules and regulation made thereunder the 45th AGM of the Company is being held through VC/OAVM. Hence members can attend and participate in the AGM thought VC/OAVM.

The electronic copies of Notice of 45th AGM alongwith Annual Report 2023-24 have been sent through electronic mode (e-mail) of 03-09-2024 to all the members whose name appeared in the Register of Members as on Friday, 30-08-2024. The AGM Notice alongwith Annual Report of FY 2023-24 is also available on www.acilnet.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.evoting.nsdl.com.

In terms of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and as per the Listing Regulations, *the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21-09-2024 to Friday, 27-09-2024 (both days inclusive) for the purpose of 45th Annual General Meeting of the Company and for payment of Dividend, if any declared, by the Members in the 45th Annual General Meeting of the Company. The record date for the Divided is 20-09-2024.

The Remote e-Voting period commences from 24-09-2024 at 10:00 A.M. and ends on 26-09-2024 at 5:00 P.M.;

The remote e-Voting shall not be allowed beyond the above said date and time. Cut-off date for the purpose of eligibilities for Re-mote e-voting is Friday, 20-09-2024. Shareholders may note that:

the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the shareholder; the shareholder shall not be allowed to change it subsequently;

the shareholders who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;

All grievances connected with facility for e-voting by electronics means may be discussed to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at Trade World A-wing Kamla Mill Compound, Lower Parel, Mumbai-400013. Or send an email to evoting@nsdl.co.in or call 022-24997000 and 022-48867000. Members may also write the under signed for any queries at above mentioned Registered office address or email to cs.corpoffice@acilnet.com

The Company has appointed Mr. Santosh Kumar Pradhan, Practicing Company Secretary (FCS No. 6973 and CP No. 7647) as the Scrutinizers to Scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manners.

The Results of remote e-voting at AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of AGM. The declared results alongwith Scrutinizers report shall be placed on the Company's website and BSE & NSE

For Ahluwalia Contracts (India) Limited

Place: New Delhi, Date: 04-09-2024

DCM FIRANCIA.

(Vipin Kumar Tiwari) Company Secretary

PUBLIC NOTICE **Before the Central Government** Registrar of Companies, Delhi

In the matter of sub-section (3) of section 13 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and Rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 And in the matter of COPIUS CAPITAL ADVISORS LLP having its registered office at 90/31 B, First Floor Malviya Nagar, South Delhi, Delhi-110017 IN, Petitioner

Notice is hereby given to the general public that Notice is releasy given to make a petition to the Registrar of Companies, Delhi under Section 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "DELHI" to the state of "Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Delhi within 21 (Twenty-One) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of COPIUS CAPITAL ADVISORS LLP Sd/

Saurav Kumar (Designated Partner) DPIN: 08202485

"FORM NO. INC-26" Before the Central Government

The Regional Director, Northern Region, New Delhi In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of STITCH OVERSEAS PRIVATE LIMITED having its registered office at A-120, Saraswati Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to he Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 05 August 2024 to enable the company to change its Registered Office from "The National Capital Territory of Delhi to the State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported affidavit stating the nature of his/her interest grounds of opposition to the Regional Director at the address Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor Pt. Deen Dayal Antyoday Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned

A-120, Saraswati Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034. For Stitch Overseas Private Limited · Sd/-Anina Satila

Place: Delhi Date: 03.09.2024

Director DIN: 01087542

DCM FINANCIAL SERVICES LIMITED

CIN: L65921DL1991PLC043087

Regd. Office: Upper Ground Floor, South Tower, NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Delhi-110003

Ph. No.: 011-20818570 | Email: info@dfslonline.in | Website: www.dfslonline.ir

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING; EVOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 33rd Annual General Meeting (AGM), of members of DCM Financial Services Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 27, 2024 at 01:00 P.M. (IST) at Sarita Sadan, NS 3B, Sarita Vihar, Adj. to St. Giri Public School, New Delhi-110076.

Shareholders seeking to update their email or bank account information etc. can do so by following the instructions provided below:

- A. For shares held in electronic form: Please register or update your details in your demat account, following the process outlined by your Depository Participant (DP).
- B. For shares held in physical form: To update your information, complete the prescribed Form ISR-1 and any other necessary forms with the Company's Registrar and Transfer Agent, MCS Share Transfer Agent Limited Address: F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 ('RTA'), in accordance with SEBI circular no. SEBI/HO/ MIRSD/POD 1/P/CIR/2023170 dated May 17, 2023. Shareholders can find the required forms on the Company's website at https://dfslonline.in/physical.html.

Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the business items as set

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, B-2 WING, 2ND FLOOR, PT. DEENDAYAL ANTYODAYA BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110003. In the matter of sub-section (4) of Section

13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (incorporation) Rules, 2014 And

In the matter of M/s CAMEL FOODS PRIVATE LIMITED